



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260193  
CG-DL-E-14012025-260193

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946

No. 213]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSHA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2025

**का.आ. 215(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्यप्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के नवीन प्रस्तावित पश्चिम बायपास के कि.मी. 0.000 से कि.मी.0.250 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुरैना) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुरैना को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या

किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के नवीन प्रस्तावित पश्चिम बायपास के कि.मी. 0.000 से कि.मी.0.250 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुरैना) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: मुरैना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बामौर					
गांव का नाम: बानमोर कलां					
1	1015/1	निजी	असिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
2	1015/2	निजी	असिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
3	1015/3/1	निजी	व्यपारिवर्तित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
4	1015/3/2	निजी	आवासीय	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
5	1015/4	निजी	असिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
गांव का नाम: बानमोर खुर्द					
6	291/1/2	निजी	आवासीय	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
7	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	निजी	असिंचित	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
8	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	आवासीय	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
9	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
10	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.0063 (हेक्टेयर)	0.0063
11	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
12	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.039 (हेक्टेयर)	0.039
13	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
14	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
15	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
16	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	आवासीय	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
17	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.065 (हेक्टेयर)	0.065

18	291/1/3/1/1/1/2	निजी	आवासीय	0.014 (हेक्टेयर )	0.014
19	291/1/3/1/1/1/2	निजी	व्यावसायिक	0.07 (हेक्टेयर )	0.07
20	291/1/3/1/1/2	निजी	आवासीय	0.018 (हेक्टेयर )	0.018
21	291/1/3/1/2	निजी	आवासीय	0.0184 (हेक्टेयर )	0.0184
22	291/1/3/2	निजी	आवासीय	0.0128 (हेक्टेयर )	0.0128
23	291/2	निजी	असिंचित	0.003 (हेक्टेयर )	0.003
24	291/2/1	निजी	असिंचित	0.003 (हेक्टेयर )	0.003
25	291/2/2	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर )	0.003
26	291/3	निजी	असिंचित	0.002 (हेक्टेयर )	0.002
27	291/3/1	निजी	असिंचित	0.002 (हेक्टेयर )	0.002
28	291/4	निजी	असिंचित	0.005 (हेक्टेयर )	0.005
29	291/5	निजी	असिंचित	0.006 (हेक्टेयर )	0.006
30	291/6	निजी	असिंचित	0.002 (हेक्टेयर )	0.002
गांव का नाम: जयपुर उर्फ नयागांव					
31	951	निजी	सिंचित	0.042 (हेक्टेयर )	0.042
32	952	निजी	असिंचित	0.002 (हेक्टेयर )	0.002
Total					0.6857

[फा. सं. NHAI/PIU-GWL/WesternBypass/2021-22/0001/3A2]

अभय जैन, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2025

**S.O. 215(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of Connecting of Newly proposed Western Bypass of GWALIOR city in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 0.250 (Office of the sub Divisional officer (Revenue), Morena) in the district of MORENA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue), Morena in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Connecting of Newly proposed Western Bypass of Gwalior city in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 0.250 (Office of the sub Divisional officer (Revenue), Morena) in the district of MORENA in the state of MADHYA PRADESH.**

State: MADHYA PRADESH			District: MORENA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Bamor</b>					
<b>Village: Banmor Kalan</b>					
1	1015/1	Private	Unirrigated	0.017 (Hectare )	0.017
2	1015/2	Private	Unirrigated	0.017 (Hectare )	0.017
3	1015/3/1	Private	Diverted	0.017 (Hectare )	0.017
4	1015/3/2	Private	Residential	0.017 (Hectare )	0.017
5	1015/4	Private	Unirrigated	0.017 (Hectare )	0.017
<b>Village: Banmore Khurd</b>					
6	291/1/2	Private	Residential	0.065 (Hectare )	0.065
7	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	Private	Unirrigated	0.065 (Hectare )	0.065
8	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Residential	0.005 (Hectare )	0.005
9	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.005 (Hectare )	0.005
10	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.0063 (Hectare )	0.0063
11	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.065 (Hectare )	0.065
12	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.039 (Hectare )	0.039
13	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.065 (Hectare )	0.065
14	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.0036 (Hectare )	0.0036
15	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.0036 (Hectare )	0.0036
16	291/1/3/1/1/1/1/1/1/1/2	Private	Residential	0.01 (Hectare )	0.01
17	291/1/3/1/1/1/1/1/1/2	Private	Commercial	0.065 (Hectare )	0.065
18	291/1/3/1/1/1/1/1/2	Private	Residential	0.014 (Hectare )	0.014
19	291/1/3/1/1/1/2	Private	Commercial	0.07 (Hectare )	0.07
20	291/1/3/1/1/2	Private	Residential	0.018 (Hectare )	0.018
21	291/1/3/1/2	Private	Residential	0.0184 (Hectare )	0.0184
22	291/1/3/2	Private	Residential	0.0128 (Hectare )	0.0128
23	291/2	Private	Unirrigated	0.003 (Hectare )	0.003
24	291/2/1	Private	Unirrigated	0.003 (Hectare )	0.003
25	291/2/2	Private	Irrigated	0.003 (Hectare )	0.003
26	291/3	Private	Unirrigated	0.002 (Hectare )	0.002
27	291/3/1	Private	Unirrigated	0.002 (Hectare )	0.002

28	291/4	Private	Unirrigated	0.005 (Hectare )	0.005
29	291/5	Private	Unirrigated	0.006 (Hectare )	0.006
30	291/6	Private	Unirrigated	0.002 (Hectare )	0.002
<b>Village: Jaipur Urf Nayagaon</b>					
31	951	Private	Irrigated	0.042 (Hectare )	0.042
32	952	Private	Unirrigated	0.002 (Hectare )	0.002
<b>Total</b>					<b>0.6857</b>

[F. No. NHAI/PIU-GWL/WesternBypass/2021-22/0001/3A2]

ABHAY JAIN, Director